

प्रेस नोट दिनांक-15.08.2022

(1). 76 वें स्वतंत्रता दिवस के पावन अवसर पर श्रीमान पुलिस अधीक्षक चित्रकूट श्री अतुल शर्मा द्वारा पुलिस लाइन चित्रकूट में ध्वजारोहण कर राष्ट्रीय ध्वज को सलामी दी गयी एवं राष्ट्रगान गाया गया। महोदय द्वारा समस्त पुलिस कर्मियों को 76 वें स्वतंत्रता दिवस की बधाई एवं शुभकामनाएं दी तथा जनपद के जिन पुलिसकर्मियों को उनके द्वारा किये गये सराहनीय कार्य एवं डियूटी हेतु सम्मानित किया गया है, पुलिस विभाग एवं जनपद चित्रकूट पुलिस के लिए गौरव का विषय है, सभी को ढेर सारी बधाई एवं शुभकामनाएं दी एवं आगे भी इसी प्रकार से अपने कर्तव्यों का पालन करते रहे जिससे भविष्य में इसी प्रकार से प्रशस्ति पत्र, मैडल एवं उनके कार्यों की पहचान होती रहे और शेष पुलिसकर्मियों के लिए प्रेरणास्रोत बनकर आए है। इन सभी से प्रेरणा लेकर अनुसरण करते हुए इसी प्रकार से अपने कर्तव्यों का निर्वहन करें। पुलिस अधीक्षक महोदय द्वारा उपस्थित समस्त पुलिसकर्मियों को संबोधित करते हुए देश की स्वतंत्रता में वीर शहीदों के द्वारा दिये गए के बलिदान के लिए उन्हें नमन करते हुए उनके द्वारा किये गए योगदान उल्लेख किया गया तथा सभी पुलिसकर्मियों को ईमानदारी एवं निष्ठापूर्ण कार्य करने हेतु प्रोत्साहित किया गया

76 वें स्वतंत्रता दिवस के पावन अवसर पर श्रीमान पुलिस महानिदेशक महोदय, उ०प्र० लखनऊ द्वारा शौर्य/ऑपरेशन के लिए श्री अतुल शर्मा पुलिस अधीक्षक चित्रकूट को सिल्वर कमण्डेशन डिस्क प्रदान कर सम्मानित किया गया।

पुलिस अधीक्षक महोदय द्वारा ध्वजारोहण के उपरांत श्रीमान पुलिस महानिदेशक महोदय, उ०प्र० लखनऊ द्वारा प्रदत्त सराहनीय सेवा सम्मान चिन्ह से मुख्य आरक्षी श्री राजेश कुमार अग्निहोत्री को अलंकृत कर प्रशस्ति पत्र दिया गया। इस अवसर पर जनपद में यू०पी०112 में निरन्तर अथक परिश्रम एवं उच्चकोटि की कर्तव्य परायणता का प्रदर्शन करते हुए राजकीय कार्य सम्पादित करने हेतु पीआरवी 4411 में नियुक्त आरक्षी नेन्द्र कुमार, आरक्षी जितेन्द्र सिंह, आरक्षी लवकुश यादव, हो०गा० लक्ष्मण प्रसाद, हो०गा० कमल प्रसाद, हो०गा० अमर सिंह तथा पीआरवी 2046 में नियुक्ति के दौरान सराहनीय कार्य करने वाले कमाण्डर देवसिंह भदौरिया एवं पायलट ओमप्रकाश को प्रशस्ति पत्र प्रदान किया गया। इस महापर्व के अवसर पर पुलिस अधीक्षक महोदय द्वारा मौजूद समस्त पुलिस कर्मियों को स्वयं मिष्ठान वितरण कर उत्साहित किया गया। इस मौके पर शहीद उ०नि० श्री जे०पी० सिंह की धर्मपत्नी जी को तथा शहीद सैनिकों के परिजनों को सम्मानित किया गया।

स्वतंत्रता दिवस के पावन अवसर पर पुलिस उपाधीक्षक(प्रशि०) श्री हर्ष पाण्डेय, पुलिस उपाधीक्षक (प्रशि०) श्री राजकमल, प्रतिसार निरीक्षक श्री सुमेर सिंह, प्रतिसार निरीक्षक दूरसंचार, प्रभारी निरीक्षक यू०पी० डायल 112 श्री रामजीत, पीआरओ० पुलिस अधीक्षक श्री प्रदीप कुमार व अन्य अधि०/कर्मचारीगण उपस्थित रहें।

(2). 76 वें स्वतंत्रता दिवस के पावन अवसर पर श्रीमान पुलिस अधीक्षक चित्रकूट श्री अतुल शर्मा के निर्देशन में श्रीमान अपर पुलिस अधीक्षक चित्रकूट श्री शैलेन्द्र कुमार राय द्वारा पुलिस अधीक्षक कार्यालय में ध्वजारोहण कर राष्ट्रीय ध्वज को सलामी देकर राष्ट्रगान गाया गया। महोदय द्वारा पुलिस कार्यालय में नियुक्त

पुलिस कर्मियों को 76 वें स्वतंत्रता दिवस की बधाई एवं शुभकामनाएं दी तथा स्वतंत्रता के महत्व के बारे में बताया गया। पूर्ण इमानदारी एवं लगन से कार्य करने हेतु पुलिस कर्मियों को आवाहन किया गया। इस अवसर पर प्रभारी सोशल मीडिया सेल, प्रभारी परिवार परामर्श केन्द्र निरीक्षक श्रीमती रीता सिंह, प्रभारी डीसीआरबी निरीक्षक श्रीमती रचना सिंह, निरीक्षक श्री अजीत कुमार पाण्डेय, निरीक्षक श्री आनन्द कुमार सिंह, श्री संतराम सिंह वाचक पुलिस अधीक्षक, श्री आलोक सिंह प्रधान लिपिक, प्रभारी अभिसूचना इकाई, प्रभारी एसआईयू0 शाखा, तथा पुलिस कार्यालय में नियुक्त अधि0/कर्मचारीगण उपस्थित रहे। इसके साथ जनपद के क्षेत्राधिकारी कार्यालयों में क्षेत्राधिकारीगण महोदय द्वारा एवं समस्त थाना/चौकियों में प्रभारी निरीक्षक/थानाध्यक्ष/चौकी प्रभारियों द्वारा ध्वजारोहण कर राष्ट्रीय ध्वज को सलामी देकर ईमानदारी एवं कर्तव्यनिष्ठा के साथ अपनी ड्यूटी करने हेतु अपने अधीनस्थ अधि0/कर्मचारीगणों को बताया गया।

(3). आज दिनांक 15.08.2022 को श्रीमान पुलिस अधीक्षक महोदय जनपद चित्रकूट श्री अतुल शर्मा के कुशल निर्देशन में महिलाओं एवं बालिकाओं में सुरक्षा एवं विश्वास का वातावरण बनाये रखने के उद्देश्य से चलाये जा रहे अभियान “मिशन शक्ति” के तहत जनपद के विभिन्न थानों की एण्टी रोमियो टीमों ने विभिन्न मन्दिरों, बाजार, स्कूलों, बस स्टैण्ड, ग्रामों इत्यादि स्थानों पर भ्रमण कर चेकिंग की गयी एवं छात्राओं/महिलाओं को उनके सुरक्षार्थ व सहायता हेतु शासन द्वारा चलायी जा रही विभिन्न हेल्पलाइन नम्बरों जैसे:- 1090-वीमेन पॉवर लाइन, 181-महिला हेल्प लाइन, 108-एम्बुलेंस सेवा, 1076-मुख्यमंत्री हेल्पलाइन, 112-पुलिस आपातकालीन सेवा, 1098-चाइल्ड लाइन, 102-स्वास्थ्य सेवा तथा थानों पर स्थापित महिला हेल्प डेस्क के बारे में विस्तार से जानकारी देकर उन्हें जागरूक किया गया तथा महिलाओं/बालिकाओं को जागरूकता पम्पलेट्स वितरित किये गए एवं सार्वजनिक स्थानों एवं चस्पा किये गए।